



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 393 राँची ,शुक्रवार 31 श्रावण 1936 (श०)
22 अगस्त, 2014 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

20 अगस्त, 2014

संख्या-15/प्र०ई०पु०-06-03/2014 का.- 8368--झारखण्ड जिला अधिनियम, 2001 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल गिरिडीह जिलान्तर्गत 'बगोदर-सरिया' अनुमंडल का सृजन तथा विभागीय अधिसूचना संख्या-2149 दिनांक-1 मार्च, 2014 द्वारा अधिसूचित 'डुमरी' अनुमंडल में स्थित प्रखंडों में परिवर्तन निम्नलिखित तालिका के स्तंभ-4 में अंकित प्रखंडों के क्षेत्र के साथ एवं स्तंभ-5 में अंकित मुख्यालय निर्धारित करते हुए करते हैं :-

क्रं० सं०	जिला	नवसृजित अनुमण्डल का नाम	संबंधित प्रखण्डों के नाम	नवसृजित अनुमण्डलों का मुख्यालय
1	2	3	4	5
1.	गिरिडीह	बगोदर-सरिया	बगोदर, सरिया एवं बिरनी	सरिया
2.	गिरिडीह	डुमरी	डुमरी एवं पीरटांड	डुमरी

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एस० के० शतपथी,

सरकार के प्रधान सचिव।
